



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 23—मार्च 29, 2008, शनिवार/चैत्र 3—चैत्र 9, 1930
No. 6] NEW DELHI, MARCH 23—MARCH 29, 2008, SATURDAY/CHAITRA 3—CHAITRA 9, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2008

का.नि.आ. 32—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रधानाचार्य (समूह 'क') और अध्यापक (राजपत्रित) (समूह 'ख') सैनिक स्कूल भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध अध्यापक (राजपत्रित) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में अध्यापक (राजपत्रित) (समूह 'ख') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अध्यापक (राजपत्रित) (समूह 'ख') राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहताएँ : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की छावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

7. निरसन और व्यावृत्ति : इन नियमों का तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ से तत्काल पूर्व प्रवृत्त नियम निरसित किया जाता है : परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अध्यापक (राजपत्रित)	50 (2008)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	7500-250-12000 रुपए	चयन	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (संबंध विषय, प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित किए जाएं) (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा या समतुल्य। (iii) सैकेंडरी या सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। वांछनीय : (i) साहसिक खेलों और एन.सी.सी./स्काउट प्रशिक्षण के संचालन का अनुभव। (ii) कंप्यूटर का कार्यकारी ज्ञान। कम्प्यूटर विज्ञान में अध्यापक के लिए : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर उपयोजन में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (ii) सैकेंडरी या सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में कम्प्यूटर विषय में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। वांछनीय : साहसिक खेलों और एन.सी.सी./स्काउट प्रशिक्षण के संचालन का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुआर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु : नहीं किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो।	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
---	---

(11)	(12)
60.00 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 40.00 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ऐसा सहायक अध्यापक, जिसने 5500-9000 रुपए के वेतनमान में उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अध्यापक (राजपत्रित) पद के नियमित पदधारी की उपयुक्तता, अध्यापक (राजपत्रित) के 7500-12000 रुपए के वेतनमान में उन्नत पद पर नियुक्ति के लिए, आरंभिक रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांची जाएगी। यदि 'उपयुक्त' पाया जाता है तो वह प्रारंभिक गठन पर पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि उन्नत वेतनमान पर नियुक्ति के लिए 'उपयुक्त नहीं' पाया जाता है तो वह 6500-10500 रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में बना रहेगा और उसके मामलों का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(12)

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी—

(क)(i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जो स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति विषय-वार होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- | | |
|--|-----------|
| 1. सैनिक शिक्षा अपर महानिदेशक, सेना मुख्यालय | — अध्यक्ष |
| 2. सैनिक शिक्षा उप महानिदेशक, सेना मुख्यालय | — सदस्य |
| 3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय | — सदस्य |

[फा. सं. 58736/एम जी/आर आर/जी एस/एमटी-15/135/डी(नियुक्ति)/08]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th March, 2008

S.R.O. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Principal (Group 'A') and Master Gazetted (Group 'B') Military Schools Recruitment rules 1981 in so far as they relate to the post of Master Gazetted, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Master Gazetted (Group 'B') in Rashtriya Military Schools, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Master Gazetted (Group 'B') Rashtriya Military Schools Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, and their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matter relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Repeal and Savings.—Any rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Master (Gazetted) in Rashtriya Military Schools	50 (2008)	Civilian in Defence Services Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 7500-250-12000	Selection	No

990 GI/08-2

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>Note 1 : Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2 .— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree from a recognised University or equivalent (The relevant subjects shall be indicated at the time of each recruitment)</p> <p>(ii) Degree or Diploma in Education from a recognised University/ Institution or equivalent</p> <p>(iii) Three years teaching experience in secondary or senior secondary schools.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Experience in conduct of Adventure Sports and NCC/ Scouts training.</p> <p>(ii) Working knowledge of Computers.</p> <p>For Master in Computer Science</p> <p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Computer Science or Computer Application from a recognised University or equivalent</p> <p>(ii) Three years teaching experience in computer subjects in secondary or senior secondary school</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Experience in conducting Adventure Sports and NCC/ Scouts training.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	<p>Age : No</p> <p>Should possess Master's degree from a recognized University or equivalent in the concerned subject.</p>	<p>Two years for direct recruits.</p>

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

(12)

60 per cent by promotion failing which by deputation
40 per cent by direct recruitment

Promotion :

Assistant Master in Rashtriya Military School in the pay scale of Rs. 5500-9000 with seven years regular service in the grade.

Note 1 : The suitability of the regular holder of the post of Master (Gazetted) in Rashtriya Military Schools will be initially assessed by the competent authority for appointment to the upgraded post of Master (Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7500-12000. If assessed 'Suitable' they shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'Not suitable' for appointment to the upgraded scale of pay, he/they shall continue to be in the revised pay scale of Rs. 6500-10500 and his/their case would be reviewed every year.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government :

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) With three years service rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/deptt.; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 8.

Note 1 : The Promotion shall be subject-wise.

Note 2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation of direct recruits) :—

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

- (1) Additional Director General of Army Education, — Chairman
Army Headquarters
- (2) Deputy Director General of Army Education, — Member
Army Headquarters
- (3) Under Secretary, Ministry of Defence — Member

[F. No. 58736/MG/RR/GS/MT-15/135/D(Apptts)/08]

C. J. JOSE, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2008

क्रा.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये 1 सितंबर, 2006 से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 6 के उपनियम (1) में, "अगली उच्चतर श्रेणी में," शब्दों के स्थान पर "अगली उच्चतर श्रेणी में, तकनीकी अधिकारी 'ग' की दशा में, उस श्रेणी में छह वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा, जो निर्धारण के उस वर्ष के 1 सितंबर को अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए निर्धारण के लिए आवश्यक होगी" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में, प्रवर्ग 'ख' में, क्रम सं. 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

7. तकनीकी अधिकारी 'घ'@	—	12000-375-16500	समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय
------------------------	---	-----------------	-------------------------------

@ किसी भी समय तकनीकी अधिकारी 'घ' की काडर संख्या, तकनीकी अधिकारी 'ग' की काडर संख्या के बीस प्रतिशत तक सीमित होगी।"

4. उक्त नियमों की अनुसूची 3 में,—

(1) क्रम सं. 5 के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

" तकनीकी सहायक 'ख'	तकनीकी सहायक 'ग'	35 %
--------------------	------------------	------

(2) क्रम सं. 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" 13. तकनीकी अधिकारी 'ग' —	तकनीकी अधिकारी 'घ'	15 %
----------------------------	--------------------	------

* किसी भी समय तकनीकी अधिकारी 'घ' की काडर संख्या, तकनीकी अधिकारी 'ग' की काडर संख्या के बीस प्रतिशत तक सीमित होगी।"

5. उक्त नियमों की अनुसूची 5 में, "प्रवर्ग 'ख' की श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 5 और श्रेणी 6" शब्दों, अक्षर और अंकों के स्थान पर, "प्रवर्ग 'ख' की श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 5, श्रेणी 6 और श्रेणी 7" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों की अनुसूची 5 में, क्रम सं. (v) के पश्चात् आने वाले "केवल प्रवर्ग ख के 5 और 6 श्रेणियों में प्रोन्नतियों के लिए" शब्दों, अक्षर और अंकों के स्थान पर, "केवल प्रवर्ग 'ख' की श्रेणी 5, श्रेणी 6 और श्रेणी 7 में प्रोन्नतियों के लिए" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. डीआरडीओ /76237/डीआरटीसी/आरआर/एमपीडी]

एस. के. देब, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन :-

सा.का.नि. 296 तारीख 5 दिसंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित रक्षा अनुसंधान तकनीकी काडर नियम की अनुसूची 3 में उपबोधित प्रोन्नति की सीमित नमनीय अनुपूरक स्कीम और भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन 15 व्यक्ति तकनीकी अधिकारी 'घ' पद पर प्रोन्नत हुए और तकनीकी सहायक 'ख' के पांच प्रतिशत अतिरिक्त, तकनीकी सहायक 'ग' पर 1 सितंबर 2006 से प्रोन्नत हुए। इसलिए, संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देना अपेक्षित है। नियमों के उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव देने के कारण किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पांदा टिप्पण :- मूल भर्ती नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में का.नि.आ. 296 तारीख 5 दिसंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए और का.नि.आ. 50 तारीख 12 फरवरी, तथा का.नि.आ. 147 तारीख 28 जून, 2002 द्वारा संशोधित किए गए।

New Delhi, the 29th February, 2008

S.R.O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Organization Technical Cadre Recruitment Rules, 2000 namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organization Technical Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 2006.

2. In the Defence Research and Development Organization Technical Cadre Recruitment Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, in sub-rule (1), for the words "next higher grade", the words "next higher grade, in case of Technical Officer 'C' a minimum of six years regular service in the grade as on 1 September of the year of assessment will be essential for assessment for promotion to the next higher grade" shall be substituted.

3. In Schedule I of the said rules, in Category 'B', after serial No. 5, the following shall be inserted namely :—

"7. Technical Officer 'D'@ — 12000-375-16500 Group 'A' Gazetted Non-Ministerial

@The Cadre strength of Technical Officer 'D' at any point of time be limited to twenty percent of the cadre strength of 'Technical Officer' 'C'.

4. In Schedule III of the said rules—

(1) for the entries against serial No. 5, the following entries shall be substituted, namely :—

"Technical Assistant 'B' Technical Assistant 'C' 35%

(2) after Serial No., 12, the following shall be inserted namely :—

"13. Technical Officer 'C' Technical Officer 'D'* 15%

*The Cadre strength of Technical Officer 'D' at any point of time be limited to Twenty percent of the Cadre Strength of Technical Officer 'C'."

5. In Schedule V of the said rules for the words "grades 3, 4, 5 and 6 of Category—B" the words, "Grades 3, 4, 5, 6, and 7 of Category—B" shall be substituted.

6. In Schedule V of the said rules, for the words "*Only for promotions to grades 5 and 6 of category—B," appearing after serial No. (v), the words "*Only for promotions to grades 5, 6 and 7 of category—B," shall be substituted..

[F. No. DRDO/76237/DRTC/RR/MPD]

S. K. DEB, Under Secy.

Explanatory Memorandum :—

Under the Limited Flexible Complementing scheme of promotions provided in Schedule III of Defence Research Technical Cadre Rules notified vide number SRO 296 dated 5th December, 2000 and approval of Government of India, 15 persons were promoted to Technical Officer 'D' and additional five percent of Technical Assistant 'B' were promoted to Technical Assistant 'C' with effect from 1st September, 2006. As such, the amendment is required to be given retrospective effect. By providing this retrospective effect to the provisions of the Rules, no one is being adversely affected.

Foot Note :—The principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India Part II, Section IV vide number SRO 296, dated 5th December, 2000 and amended vide number SRO 50 and 12th February, and number SRO 147 dated 28th June, 2002.

990 GI/08-3

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2008

का.नि.आ. 34.—केन्द्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम 1978 की धारा 123 की उपधारा (2) के खंड (ख) तथा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 11(15)/2001/यू एस (पर्स)/डी (नौसेना-2) दिनांक 17 अगस्त 2001 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा (i) तटरक्षक नाविक (तकनीकी शाखा), भर्ती नियम, 1982; (ii) तटरक्षक नाविक (सामान्य ड्यूटी), भर्ती नियम, 1982 तथा (iii) तटरक्षक नाविक (घरेलू शाखा), भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, एतद्द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में प्रधान यांत्रिक, उत्तम यांत्रिक, यांत्रिक, प्रधान नाविक (सामान्य ड्यूटी), उत्तम नाविक (सामान्य ड्यूटी), नाविक (सामान्य ड्यूटी), प्रधान नाविक (घरेलू शाखा), उत्तम नाविक (घरेलू शाखा) तथा नाविक (घरेलू शाखा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक यांत्रिक, नाविक (सामान्य ड्यूटी) तथा नाविक (घरेलू शाखा) (समूह 'ग/घ' पद), भर्ती नियम 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे सम्बन्धित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रधान यांत्रिक	194*(2008) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह 'ग' अराजपत्रित	रुपये 5000-150- 8000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो				
(8)	(9)	(10)				
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष				
भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत						
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा						
(11)	(12)					
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा	<p>प्रोन्नति :</p> <p>(1) तटरक्षक में उत्तम यांत्रिक रैंक के ऐसे उपयुक्त नाविकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने कम से कम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन उस रैंक में कम से कम तीन वर्ष सेवा की है और</p> <p>(2) ऐसे प्रधान और उत्तम नाविकों (सामान्य ड्यूटी) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए मैकेनिशियन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।</p> <p>स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति :</p> <p>नौसेना के सेवारत शिल्पी/मैकेनिशियन-3 और सेना और वायुसेना में समतुल्य पदों पर सेवारत अधिकारी या</p> <p>नौसेना में शिल्पी/मैकेनिशियन-3 के लिए समय पर अर्हित शिल्पी/मैकेनिशियन-4 और सेना और वायुसेना के समतुल्य पद धारक</p> <p>(टिप्पणी :-प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p> <p>पुनर्नियोजन :</p> <p>ऐसे सेवानिवृत्त नौसेना नाविक जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय कम से कम शिल्पी/मैकेनिशियन का पद धारण किया हुआ था और थलसेना तथा वायुसेना में समतुल्य पद धारक</p>					
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना						
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा						
(13)	(14)					
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-						
लागू नहीं ।						
अध्यक्ष के रूप में कमांडेंट रैंक का अफसर, सदस्यों के रूप में उप/सहायक कमांडेंट रैंक के दो अफसर						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उत्तम यांत्रिक	17*(2008) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह 'ग' अराजपत्रित	4500-125-7000 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)				
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष				
(11)	(12)					
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा	प्रोन्नति : (1) तटरक्षक में यांत्रिक रैंक के ऐसे उपयुक्त नाविकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए उस रैंक में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की हो स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति : नौसेना के सेवारत शिल्पी/मैकेनिशियन और सेना इसके समतुल्य पदधारक (टिप्पणी) :—प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)					
(13)	(14)					
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- अध्यक्ष के रूप में कमांडेंट रैंक का अफसर, सदस्यों के रूप में उप/सहायक कमांडेंट रैंक के दो अफसर	लागू नहीं ।					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. यांत्रिक	117*(2008) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह 'ग' अराजपत्रित	4000-100- 6000 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 22 वर्ष, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। (टिप्पणी : आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख अनुसूचित बुनियादी प्रशिक्षण माह के पहले दिन से तय होगी)
(8)	(9)	(10)				
1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और 2. वैद्युत/यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार (रेडियों) (विद्युत) इंजीनियरी में डिप्लोमा	लागू नहीं	दो वर्ष				
(11)	(12)					
स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : (1) ऐसे चयनित प्रधान/उत्तम नाविकों (सामान्य ड्यूटी) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए मैकेनिशियन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।					
(13)	(14)					
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- अध्यक्ष के रूप में कमांडेंट रैंक का अफसर, सदस्यों के रूप में उप/सहायक कमांडेंट रैंक के दो अफसर	लागू नहीं ।					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. प्रधान नाविक (सामान्य ड्यूटी)	858*(2008) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	तटरक्षक सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	रुपये 3200-85-4900 के और 50 रु. (केवल पचास रु.) का विशेष वेतन प्रतिमाह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति
या स्थानांतरण द्वारा और इन सभी के न हो सकने
पर पुनर्नियोजन द्वारा

प्रोन्नति :

- (i) ऐसे उत्तम नाविक (सामान्य ड्यूटी) जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए उस रैंक में 4 वर्ष सेवा की हो। नौसेना में मुख्य नाविक की रैंक पूर्व सेवा तथा सेना और वायु सेना में समतुल्य पदाधारकों की सेवा पूर्ण रूप से गिनती में ली जाएगी।

स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण:

- (ii) नौसेना में चिकित्सा सहायक, रसोइया, स्टुअर्ड तथा टोपस और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पद धारकों के सिवाय नौसेना की सभी शाखाओं से सेवारत/गैर शिल्पी/मैकेनिशियन/पेटी अफसर और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारक

या

पेटी अफसर और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारकों की प्रोन्नति के लिए सभी तरह अर्हित नौसेना में मुख्य नाविक तथा सेना और वायुसेना में समतुल्य पदधारक

या

केन्द्रीय/राज्य पुलिस सेवा में सेवारत ऐसा हैड कांस्टेबल

या समतुल्य या केन्द्रीय/राज्य पुलिस सेवा में ऐसा नायक या समुल्य जो हैड कांस्टेबल की प्रोन्नति के लिए सभी तरह अर्हित है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

(iii) पुनर्नियोजन :

ऐसे नौसेना नाविक जिन्होंने नौसेना में गैर-शिल्पी/मैकेनिशियन/पेटी अफसर का पद धारण किया हुआ है और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पद धारण किया है और ऐसे पुलिस कार्मिक जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय केन्द्रीय/राज्य पुलिस सेवा में हैड कांस्टेबल या समतुल्य पद धारण किया हुआ है।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- अध्यक्ष के रूप में कमांडेंट रैंक का अफसर, सदस्यों के रूप में उप/सहायक कमांडेंट रैंक के दो अफसर	लागू नहीं।

990 GI/08-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. उत्तम नाविक (सामान्य ड्यूटी)	1109*(2008) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	तटरक्षक सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	रुपये 3200-85-4900	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(8)	(9)		(10)			
लागू नहीं	लागू नहीं		दो वर्ष			
(11)			(12)			
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा			<p>प्रोन्नति :</p> <p>(i) ऐसे नाविक (सामान्य ड्यूटी) जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए उस रैंक में 5 वर्ष सेवा की हो। नौसेना में नाविक-2 की रैंक पूर्व सेवा तथा सेना और वायु सेना में समतुल्य पदधारकों की सेवा पूर्ण रूप से गिनती में ली जाएगी।</p> <p>(ii) स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : नौसेना में चिकित्सा सहायक, रसोइया, स्टुअर्ड तथा टोपस और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पद धारकों के सिवाय नौसेना की सभी शाखाओं से सेवारत/गैर शिल्पी/मैकेनिशियन/पेटी अफसर और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारक या मुख्य नाविक और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारकों की प्रोन्नति के लिए सभी तरह अर्हित नौसेना में नाविक-I/II तथा सेना और वायुसेना में समतुल्य पदधारक या केन्द्रीय/राज्य पुलिस सेवा में सेवारत ऐसा नायक या समतुल्य अथवा ऐसा लांस नायक/सिपाही या समतुल्य जो नायक की प्रोन्नति के लिए सभी तरह अर्हित है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p> <p>(iii) पुनर्नियोजन : सेवानिवृत्त ऐसे नौसेना नाविक जिन्होंने न्यूनतम मुख्य नाविक का पद धारण किया हुआ है तथा सेना और वायुसेना में समतुल्य पद धारण किया है और ऐसे पुलिस कार्मिक जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय केन्द्रीय/राज्य पुलिस सेवा में नायक या समतुल्य पद धारण किया हुआ है।</p>			
(13)			(14)			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : अध्यक्ष के रूप में कमांडेंट रैंक का अफसर, सदस्यों के रूप में उप/सहायक कमांडेंट रैंक के दो अफसर			लागू नहीं			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. नाविक (सामान्य ड्यूटी)	666*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	तटरक्षक सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रु. 3050-75- 3950-80- 4590	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 22 वर्ष, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। (टिप्पणी : आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख अनुसूचित बुनियादी प्रशिक्षण माह के पहले दिन से तय होगी)।

(8)	(9)	(10)
भौतिक तथा गणित के साथ 10+2 कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, तथा इन सबके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा।	(i) स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : नौसेना में चिकित्सा सहायक, रसोइया, स्टुअर्ड तथा टोपस और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पद धारकों के सिवाय नौसेना की सभी शाखाओं से सेवारत नाविक-I/II तथा सेना और वायुसेना में समतुल्य पदधारक या केन्द्रीय/राज्य पुलिस सेवा में ऐसा लांस नायक/सिपाही या समतुल्य पद धारक (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। (ii) पुनर्नियोजन : केन्द्रीय/राज्य पुलिस सेवा में सेवानिवृत्त लांस नायक/सिपाही या समकक्ष

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : अध्यक्ष के रूप में कमांडेंट रैंक का अफसर, सदस्यों के रूप में उप/सहायक कमांडेंट रैंक के दो अफसर।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. प्रधान नाविक (घरेलू शाखा)	158*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	तटरक्षक सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	रु. 3200-85-4900	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा।	प्रोन्नति : (1) ऐसे उत्तम नाविक (घरेलू शाखा) जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए उस रैंक में 4 वर्ष सेवा की हो। नौसेना में मुख्य रसोइया (अफसर)/मुख्य रसोइया (नाविक)/मुख्य स्टुअर्ड के रैंक की नियमित पूर्व

(12)

सेवा तथा सेना और वायुसेना में समतुल्य पदधारकों की सेवा पूर्ण रूप से गिनती में ली जाएगी।

(2) स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

नौसेना में सेवारत पेटी अफसर रसोईया (नाविक)/पेटी अफसर रसोईया (नाविक)/पेटी अफसर स्टुअर्ड और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारक

या

नौसेना में पेटी अफसर रसोईया (अफसर)/पेटी अफसर रसोईया (नाविक)/पेटी अफसर स्टुअर्ड और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारकों की प्रोन्नति के लिए सभी तरह अर्हित नौसेना में मुख्य स्टुअर्ड तथा सेना और वायुसेना में समतुल्य पदधारक (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(3) पुनर्नियोजन :

सेवानिवृत्त ऐसे नौसेना नाविक जिन्होंने नौसेना में न्यूनतम पेटी अफसर रसोईया (अफसर)/पेटी अफसर रसोईया (नाविक)/पेटी अफसर स्टुअर्ड का पद धारण किया हुआ है और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पद धारण किया हुआ है।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

लागू नहीं

अध्यक्ष के रूप में कमांडेंट रैंक का अफसर, सदस्यों के रूप में उप/सहायक कमांडेंट रैंक के दो अफसर।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. उत्तम नाविक (घरेलू शाखा)	173*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	तटरक्षक सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रु. 3050-75-3950-80-4590	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(8)			(9)			(10)
लागू नहीं			लागू नहीं			दो वर्ष

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा।

(1) प्रोन्नति :

ऐसे नाविक (घरेलू शाखा) जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्याधीन रहते हुए उस रैंक में 5 वर्ष सेवा की हो। नौसेना में रसोईया (अफसर)/रसोईया (नाविक) तथा/या स्टुअर्ड I/II के रैंक की नियमित पूर्व सेवा और सेना तथा वायु सेना में समतुल्य पदधारकों की सेवा, यदि कोई है तो, पूर्ण रूप से गिनती में ली जाएगी।

(2) स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

नौसेना में सेवारत मुख्य रसोईया (अफसर)/मुख्य रसोईया (नाविक)/मुख्य स्टुअर्ड और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारक

या

(12)

नौसेना में मुख्य रसोईया (अफसर)/मुख्य रसोईया (नाविक)/मुख्य स्टुअर्ड और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारकों की प्रोन्नति के लिए सभी तरह अर्हित नौसेना में रसोईया (अफसर)/रसोईया (नाविक)/स्टुअर्ड और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारक (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

(3) पुनर्नियोजन :

सेवानिवृत्त ऐसे नौसेना नाविक जिन्होंने नौसेना में न्यूनतम मुख्य रसोईया (अफसर)/मुख्य रसोईया (नाविक)/मुख्य स्टुअर्ड का पद धारण किया हुआ है और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पद धारण किया है।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं।

अध्यक्ष के रूप में कमांडेंट रैंक का अफसर, सदस्यों के रूप में उप/सहायक कमांडेंट रैंक के दो अफसर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. नाविक (घरेलू शाखा)	173*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	तटरक्षक सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	2750-70- 3800-75- 4400 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 22 वर्ष, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। (टिप्पणी : आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख अनुसूचित बुनियादी प्रशिक्षण माह के पहले दिन से तय होगी)

(8)

(9)

(10)

10वीं कक्षा उत्तीर्ण

लागू नहीं

दो वर्ष

(11)

(12)

सीधे भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :
नौसेना में सेवारत रसोईया (अफसर)/रसोईया (नाविक)/स्टुअर्ड और सेना तथा वायुसेना में समतुल्य पदधारक (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं

अध्यक्ष के रूप में कमांडेंट रैंक का अफसर, सदस्यों के रूप में उप/सहायक कमांडेंट रैंक के दो अफसर

[फा. सं. आरटी/0230/ईपी/126/डी(एन-II)एसओ(सीजी)]

बी. के. तिवारी, निदेशक (एन-II)

११०६१/०८-५

New Delhi, the 19th March, 2008

S.R.O. 34.—In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (2) of Section 123 of the Coast Guard Act 1978 and the Ministry of Defence letter No. 11(15)/2001/US(Pers)/D(Navy-II) dated 17th August 2001 and in supersession of (i) the Coast Guard Naviks (Technical Branch), Recruitment rules, 1982; (ii) the Coast Guard Naviks (General Duty), Recruitment rules, 1982 and (iii) the Coast Guard Naviks (Domestic Branch), Recruitment rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Pradhan Yantrik, Uttam Yantrik, Yantrik, Pradhan Navik (General Duty), Uttam Navik (General Duty), Navik (General Duty), Pradhan Navik (Domestic Branch), Uttam Navik (Domestic Branch) and Navik (Domestic Branch) in the Coast Guard Organisation under the Ministry of Defence namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Coast Guard Yantrik, Navik (General Duty) and Navik (Domestic Branch) (Group 'C/D' Post) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Caste, Ex-servicemen, Sportspersons and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pradhan Yantrik	194 *(2008) *Subject to variation depending upon work-load from time to time)	Group 'C' Non Gazetted	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any		
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years		
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made			
(11)		(12)			
By Promotion failing which by deputation or transfer and failing all, by re-employment		<p>Promotion :</p> <p>(i) By promotion from amongst suitable sailors of the rank of Uttam Yantrik in Coast Guard who have put in atleast three years service in the rank subject to passing departmental examination And</p> <p>(ii) By promotion from amongst Pradhan and Uttam Navik (General Duty) who have successfully completed the Mechanician Course subject to passing the departmental examination.</p> <p>Transfer/deputation Serving Artificer/Mechanician III of the Navy and equivalent in the Army and Air Force.</p> <p>Or</p> <p>Artificer/Mechanician IV qualified by time for Artificer/Mechanician III in the Navy and equivalent in the Army and Air Force.</p> <p>(Note :—The period of deputation will not ordinary exceed 3 years)</p> <p>Re-employment Retired Naval Sailors who held the rank of at least Artificer/Mechanician IV at time of retirement and equivalent in the Army and Air Force.</p>			
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
(13)		(14)			
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— One Officer of the Rank of Commandant as Chairman Two officers of the rank of Deputy/Assistant Commandant as Members		Not applicable.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Uttam Yantrik	17*(2008) *Subject to variation depending upon work-load from time to time)	Group 'C' Non Gazetted	Rs. 4500-125-7000	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years		
(11)	(12)				
By Promotion failing which by deputation or transfer	Promotion : By promotion from amongst suitable sailors of the rank of Yantrik in Coast Guard who have successfully completed probation period of two years in that rank subject to passing the departmental examination Transfer/deputation Serving Artificer/Mechanician IV of the Navy and equivalent in the Army and Air Force. (Note :—The period of deputation will not ordinary exceed 3 years)				
(13)	(14)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— One Officer of the Rank of Commandant as Chairman, Two officers of the rank of Deputy/Assistant Commandant as Members	Not applicable.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Yantrik	117 *(2008) *Subject to variation depending upon work-load from time to time)	Group 'C' Non Gazetted	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)		
18-22 years relaxable by 5 years for SC/ST and 3 years for OBC candidates. (Note : The crucial date for determining the age shall be the first day of the month of the scheduled basic training)	1. Matriculation or equivalent; and 2. Diploma in Electrical/Mechanical/Electronics/Telecommunication (Radio) (Power) Engineering	Not applicable	Two years		
(11)	(12)				
By transfer/deputation/promotion and direct recruitment	Promotion : By promotion from amongst selected Pradhan/Uttam Navik(General Duty)who have successfully completed the Mechanician Course subject to passing the departmental examination. Transfer/deputation Serving Naval sailors qualified for promotion to Artificer/Mechanician IV and equivalent in the Army and Air Force. (Note :—The period of deputation will not ordinary exceed 3 years)				

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— One Officer of the Rank of Commandant as Chairman, two officers of the rank of Deputy/Assistant Commandant as Members	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Pradhan Navik (General Duty)	858 *(2008) *Subject to variation depending upon work-load from time to time).	Coast Guard Service Group 'C' Non Gazetted, Ministerial	Rs. 3200-85-4900 and Special pay Rs. 50 (Rupees fifty only) per month	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By Promotion failing which by transfer failing which on deputation failing which by re-employment.	<p>Promotion :</p> <p>Uttam Navik (General Duty) with 4 years service in the rank subject to passing the departmental examination.</p> <p>Previous service in the Navy in the rank of Leading Seaman and equivalent in the Army and Air Force to count in full.</p> <p>(ii) Transfer/Transfer on deputation Serving/non-Artificer/Mechanician/Petty Officer from all branches of the Navy and equivalent in the Army and Air Force except Medical Assistant, Cook, Steward and Topass in the Navy and equivalent in the Army and Air Force.</p> <p>Or</p> <p>Leading Seaman in the Navy and equivalent in the Army and Air Force qualified in all respects for promotion to Petty Officer and equivalent in the Army and Air Force.</p> <p>Or</p> <p>Serving Head Constable or equivalent in the Central/State Police service or Naik or equivalent in the Central/State Police Service who is qualified in all respect for promotion to Head Constable. (The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)</p> <p>(iii) Re-employment Naval Sailors who held the post of Non Artificer/Mechanician/Petty Officer in Navy and equivalent in Army and Air Force and Police personnel who held the post of Head Constable or equivalent in Central/State Police service at the time of retirement.</p>

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— One Officer of the Rank of Commandant as Chairman, two officers of the rank of Deputy/Assistant Commandant as Members	Not applicable.

990 GI/08-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Uttam Navik (General Duty)	1109 *(2008) *Subject to variation depending upon work-load from time to time).	Coast Guard Secrvce Group 'C' Non Gazetted, Ministerial	Rs. 3200-85-4900	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years		
(11)	(12)				
By Promotion failing which by transfer failing which on deputation failing which by re-employment.	<p>Promotion :</p> <p>Navik(General Duty) with 5 years service in the rank subject to passing the departmental examination.</p> <p>Previous service as Seamen II in the Navy or equivalent in the Army and Air Force to count in full.</p> <p>(ii) Transfer/Transfer on deputation Serving/non-Artificer/Mechanician/Leading Seamen from all branches of the Navy and equivalent in the Army and Air Force except Medical Assistant, Cook, Steward and Topass in the Navy and equivalent in the Army and Air Force.</p> <p>Or</p> <p>Seaman I/II in the Navy and equivalent in the Army and Air Force qualified in all respects for promotion to Leading Seamen and equivalent in the Army and Air Force.</p> <p>Or</p> <p>Serving Naik or equivalent in the Central/State Police service or Lance Naik/Constable or equivalent qualified in all respect for promotion to Naik. (The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).</p> <p>(iii) Re-employment Retired Naval Sailors who held the post of atleast Leading Seamen and equivalent in Army and Air Force and Police personnel who held the post of Naik and equivalent in Central/State Police service at the time of retirement.</p>				
(13)	(14)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— One Officer of the Rank of Commandant as Chairman, two officers of the rank of Deputy/Assistant Commandant as Members	Not applicable.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Navik (General Duty)	666*(2008) *Subject to variation depending on work-load from time to time).	Coast Guard Service Group 'C' Non Gazetted, Ministerial	Rs. 3050-75-4590	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)		
18-22 years Relaxable by 5 years for SC/ST and 3 years for OBC candidates. (Note : The crucial date for determining the age shall be the first day of the month of the scheduled basic training)	10 + 2 (Physics and Mathematics) pass	Not applicable	Two years		
(11)	(12)				
By Direct Recruitment failing which by transfer failing which on deputation failing which by re-employment.	(i) Transfer/Transfer on deputation Serving Seaman I/II from all branches of the Navy and equivalent in the Army and Air Force except Medical Assistant, Cook, Steward and Topass in the Navy and equivalent in the Army and Air Force. Or Serving Lance Naik/Constables or equivalent in the Central/ State Police service. (The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years) (ii) Re-employment Retired Lance Naik/Constables or equivalent in the Central/State Police service.				
(13)	(14)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— One Officer of the Rank of Commandant as Chairman, two officers of the rank of Deputy/Assistant Commandant as Members	Not applicable				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Pradhan Navik (Domestic Branch)	158*(2008) *Subject to variation depending upon work- load from time to time.	Coast Guard Service Group 'C' Non Gazetted, Ministerial	Rs. 3200-85- 4900	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years		
(11)	(12)				
By Promotion failing which by transfer failing which on deputation and failing its all above methods by re-employment.	(i) By Promotion : Uttam Navik (Domestic Branch) with 4 years service in the rank on regular basis subject to passing the departmental examination. Previous service in the Navy in the rank of Leading Cook (Officer)/Leading Cook (Sailor)/Leading Steward on regular basis and equivalent in the Army and Air Force to count in full. (ii) Transfer/Transfer on deputation Serving Petty Officer Cook (Officer)/Petty Officer Cook (Sailor)/ Petty Officer Steward of the Navy and equivalent in the Army and Air Force.				

(12)					
Or Leading Cook (Officer)/Leading Cook(Sailor)/Leading Steward in the Navy and equivalent in the Army and Air Force qualified in all respects for promotion to Petty Officer Cook (Officer)/ Petty Officer Cook (Sailor)/Petty Officer Steward in the Navy and equivalent in the Army and Air Force. (The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years) Re-employment Retired Naval Sailors who held the rank of atleast Petty Officer Cook (Officer)/Petty Officer Cook (Sailor)/Petty Officer Steward and equivalent in Army and Air Force.					
(13)			(14)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— One Officer of the Rank of Commandant as Chairman, Two officers of the rank of Deputy/Assistant Commandant as Members			Not applicable		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Uttam Navik (Domestic Branch)	173*(2008) *(Subject to variation depending upon work-load from time to time).	Coast Guard Secvice Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)		(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable		Not applicable	Two years	
(11)			(12)		
By Promotion failing which by transfer/failing which by transfer on deputation and failing all above methods by re-employment			(i) Promotion : Navik (Domestic Branch) with 5 years service in the rank on regular basis subject to passing the departmental examination. Previous service in the Navy if any, as Cook (Officer)/Cook (Sailor)/and/or Steward I/II on regular basis and equivalent in the Army and Air Force to count in full. (ii) Transfer/Transfer on deputation : Serving Leading Cook (Officer)/Leading Cook(Sailor)/Leading Steward of the Navy and equivalent in the Army and Air Force. Or Cook (Officer)/Cook (Sailor)/Steward of the Navy and equivalent in the Army and Air Force qualified in all respects for promotion to Leading Cook(Officer)/Leading Cook (Sailor)/Leading Steward on the Navy and equivalent in the Army and Air Force. (The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years) (iii) Re-employment : Retired Naval Sailors who held the rank of atleast Leading Cook (Officer)/Leading Cook(Sailor)/Leading Steward and equivalent in the Army and Air Force.		

(13)			(14)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— One officer of the Rank of Commandant as Chairman, Two officers of the rank of Deputy/Assistant Commandant as Members			Not applicable		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Navik (Domestic Branch)	78*(2008) *(Subject to variation depending upon work-load from time to time).	Coast Guard Secservice Group 'D' Non Gazetted, Ministerial	Rs. 2750-70-3800-75-4400	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)		(9)	(10)	
18-22 years relaxable by 5 years for SC/ST and 3 years for OBC candidates. (Note : The crucial date for determining the age shall be the first day of the month of the scheduled basic training)	10th Class pass		Not applicable	Two years	
(11)	(12)				
By Direct Recruitment failing which by transfer failing which on deputation	Transfer/Transfer on deputation : Serving Cook (Officer)/Cook (Sailor)/Steward of the Navy and equivalent in the Army and Air Force. (The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)				
(13)	(14)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— One officer of the Rank of Commandant as Chairman, Two officers of the rank of Deputy/Assistant Commandant as Members			Not applicable		

[F. No. RT/0230/EP/126/D(N-II)/SO(CG)]

V. K. TIWARY, Director (N-II)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2008

का.नि.आ. 35.—केन्द्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम 1978 (1978 का 30) की धारा 123 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी शाखा (पायलट/नेवीगेटर) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने के लिए लोप किया गया है, तटरक्षक में सहायक कमांडेंट (सामान्य ड्यूटी-पायलट शाखा) के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी-पायलट/नेवीगेटर तथा सहायक कमांडेंट पायलट/व्यावसायिक पायलट लाइसेंस-अल्प सेवा भर्ती नियम, 2007 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

990 GI/08-7

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य विषय वे होंगे जो, पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. नियुक्ति की अवधि : सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी शाखा (पायलट-व्यावसायिक पायलट लाइसेंस-अल्प सेवा) के रूप में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर होगी, अर्थात् :-

- (क) अफसरों की नियुक्ति अवधि आठ वर्षों के लिए होगी, जोकि दस वर्ष तक बढ़ सकती है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे चौदह वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (ख) अफसरों को स्थायी भर्ती योजना में परिवर्तित होने का विकल्प नहीं होगा।
- (ग) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर अफसरों को आठ वर्षों की सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा छोड़ने की इजाजत नहीं होगी।

5. वैवाहिक स्थिति : नियुक्ति के लिए, विवाह निरर्हता नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान ऐसा अफसर परिवार को साथ रखने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो कि अविवाहित है, को प्रशिक्षण समाप्ति, जो भी बाद में हो, होने तक विवाह करने अथवा उसका इकरार करने की अनुमति नहीं होगी :

परन्तु साथ ही महिला अफसर के मामले में, नियुक्ति निम्नलिखित आधार पर आगे मर्यादित होगी, अर्थात् :-

- (i) प्रशिक्षण समाप्ति की तारीख से तीन वर्षों के अंतर्गत गर्भावस्था मामले में उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी।
- (ii) पूर्ण सेवाकाल के दौरान वह दो से अधिक गर्भधारण नहीं करेगी।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति,-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका विवाहिती जीवित है, से विवाह किया है; अथवा
- (ख) जिसने, अपने विवाहिती के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का इकरार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी शाखा (पायलट)	10*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह 'क'	8000-275-13500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भर्ती वर्ष की 1 जुलाई को न्यूनतम 19 वर्ष तथा अधिकतम 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट)

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो				
(8)	(9)	(10)				
भौतिकी और गणित विषयों सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि	लागू नहीं	दो वर्ष				
भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत						
(11)	(12)					
सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या दोनों के न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा ।	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा</p> <p>सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी शाखा (पायलट/नेवीगेटर)</p> <p>(i) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण-नौसेना में कार्यकारी शाखा (पायलट/नेवीगेटर) में लेफ्टिनेंट रैंक तथा वायुसेना में उड़ान शाखा में समकक्ष रैंक के उपयुक्त सेवारत नौसेना एवं वायुसेना अफसर ।</p> <p>(ii) सामान्य ड्यूटी शाखा के सेवारत सहायक कमांडेंट जो कि सप्प 8(क) में उपदर्शित शैक्षिक अर्हताएं धारण करते हों ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । सामान्य ड्यूटी शाखा के सेवारत सहायक कमांडेंटों को सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी (पायलट) के रूप में प्रतिनियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।</p> <p>(iii) पुनर्नियोजन : नौसेना में कार्यकारी शाखा (पायलट/पर्यवेक्षक) रैंक तथा वायुसेना में उड़ान शाखा के समकक्ष रैंक के उपयुक्त सेवानिवृत्त/विमुक्त अल्प सेवा कमीशन अफसर, जिनकी आयु पुनर्नियोजन की तारीख को 32 वर्ष से अधिक न हो ।</p>					
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा				
(13)	(14)					
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं ।				
(क) उपमहानिदेशक, तटरक्षक		—अध्यक्ष				
(ख) तटरक्षक से उपमहानिरीक्षक अथवा कमांडेंट रैंक के दो प्रातिनिधि		—सदस्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी शाखा (पायलट-व्यावसायिक पायलट अनुज्ञापति-अल्प सेवा नियुक्ति)	5*(2007) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह 'क'	8000-275-13500 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	भर्ती वर्ष की 1 जुलाई को न्यूनतम 19 वर्ष तथा अधिकतम 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट) ।

(8)	(9)	(10)
10 + 2 + 3 स्कीम के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य हो तथा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को चालू व्यावसायिक पायलट अनुज्ञप्ति का पद धारण करता हो।	लागू नहीं	दो वर्ष
(11)	(12)	
सीधी भर्ती द्वारा	सहायक कमांडेंट सामान्य ड्यूटी. (पायलट-व्यावसायिक पायलट अनुज्ञप्ति धारक-अल्प सेवा नियुक्ति)लागू नहीं	
(13)	(14)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित होंगे :- (क) उपमहानिदेशक, तटरक्षक -अध्यक्ष (ख) तटरक्षक से उपमहानिरीक्षक अथवा कमांडेंट रैंक के दो प्रतिनिधि -सदस्य		लागू नहीं।

[फा. सं. आरटी/0227/2115/डीओ(सीजी)/डी(एन-II)]

वी. के. तिवारी, निदेशक (नेवी-II)

New Delhi, the 11th March, 2008

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (2) of Section 123 of the Coast Guard Act 1978 (30 of 1978) and in supersession of the Assistant Commandant General Duty Branch (Pilot/Navigator) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commandant (General Duty-Pilot Branch) in the Coast Guard, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Assistant Commandant General Duty-Pilot Navigator and Assistant Commandant Pilot/Commercial Pilot Licence-Short Service Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Tenure of appointment.—The appointment of selected candidates as Assistant Commandant General Duty Branch (Pilot-Commercial Pilot Licence-Short Service) shall be subject to the following conditions, namely :—

- The tenure of appointment of Officers shall be eight years, which may be extended to ten years and may be further extended up to fourteen years by the competent authority.
- the officers shall not have the option for change over to Permanent Entry Scheme.
- the officers will not be permitted to resign before completion of eight years of service except in exceptional circumstances after approval of the competent authority.

5. Marital status.—Marriage shall not be a disqualification for appointment :

Provided that no such officer shall during the period of training be entitled to stay with the family :

Provided further that no person who is unmarried shall be permitted to enter into or contract a marriage till the completion of training or award of wings or completion of probation whichever is later :

Provided also that in the case of lady officer, the appointment is subject to the following further restrictions, namely :—

- Her appointment shall be terminated in case of pregnancy within three years from the date of completion of training.
- She shall not have more than two pregnancies during the entire term of appointment.

6. Disqualification.—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Commandant General Duty Branch (Pilot)	10*(2007) *Subject to variation dependent on work-load	Group 'A'	Rs. 8000-275-13500	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
19 years and not more than 27 years on the 1st July of the year of recruitment. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	B.Sc degree with Physics and Mathematics as subjects	Not applicable	Two years

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)

By direct recruitment, failing which by deputation failing both by re-employment.

Assistant Commandant General Duty Branch (Pilot/Navigator).

(i) Transfer/transfer on deputation, Suitable serving Naval and Air Force Officers holding the rank of Lieutenant in the Executive Branch (Pilot/Navigator) in the Navy and equivalent rank in the flying branch of the Air Force.

(ii) Serving Assistant Commandants of the General Duty Branch who possess educational qualifications indicated in column 8 (a).

(12)					
Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation/department shall not ordinarily exceed three years. The serving Assistant Commandants General Duty shall not be considered for deputation as Assistant Commandant General Duty (Pilot). (iii) Re-employment suitable retired/released Short Service Commission Officer of the Executive Branch (Pilot/Observer) in the Navy and equivalent rank in the Flying Branch of the Air Force who is not more than 32 years on the date of re-employment.					
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.		
(13)			(14)		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:—			Not applicable.		
(a) Deputy Director General Coast Guard			—Chairman		
(b) Two representatives of the Coast Guard of the rank of Deputy Inspector General or Commandant			—Members		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Commandant General Duty Branch (Pilot-Commercial Pilot License-Short Service Appointment)	5*(2007) *Subject to variation depending on workload)	Group 'A'	Rs. 8000-275-13500	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)		
19 years and not more than 27 years on the 1st July of the year of recruitment. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Should have passed 12th class in the 10 + 2 + 3 scheme or equivalent and should possess current Commercial Pilot Licence on the date of submission of application	Not applicable	Two years		
(11)	(12)				
By direct recruitment		Assistant Commandant General Duty (Pilot—Commercial Pilot Licence Holder—Short Service Appointment)— Not applicable			
(13)		(14)			
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:—		Not applicable.			
(a) Deputy Director General Coast Guard		—Chairman			
(b) Two representatives of the Coast Guard of the rank of Deputy Inspector General or Commandant		—Members			

[F. No. RT/0227/2115/DO(CG)/D(N-II)]

V. K. TIWARY, Director (N-II)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2008

का.नि.आ. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध और आयुध उपस्कर फैक्टरी समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक (अर्द्धचिकित्सीय) पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध और आयुध उपस्कर फैक्टरी समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक (अर्द्धचिकित्सीय) पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयुध और आयुध उपस्कर फैक्टरी समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक (अर्द्धचिकित्सीय) पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)

(क) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के नियम 1 के उप-नियम 1 में, अंक "2004" के स्थान पर "2005" अंक रखे जाएंगे।

नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग (केवल समूह 'ख' पदों की दशा में) से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्यांक 1 से 13 और 17, 18 के सामने, स्तंभ 2 में, विद्यमान अंक "2004" के स्थान पर "2005" अंक रखे जाएंगे,

(ख) मेट्रान के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 13 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) की संरचना जिसमें निम्नलिखित होंगे।"

(क) स्वास्थ्य सेवा निदेशक या

अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक —अध्यक्ष

(ख) उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक —सदस्य

(ग) उप सचिव या अवर सचिव —सदस्य

(ग) ज्येष्ठ नर्स श्रेणी-1 से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. स्टाफ नर्स	9*(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन अनौद्योगिक समूह 'ख' अराजपत्रित	5500-175-9000 रुपए	चयन	नहीं	लागू नहीं होता
(8)	(9)		(10)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता			
(11)	(12)					
प्रोन्नति	5000-8000 रुपए के वेतनमान में ऐसी ज्येष्ठ नर्स श्रेणी-2 से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ					

(12)

व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) की संरचना जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | |
|--|----------|
| (क) स्वास्थ्य सेवा निदेशक या अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक | —अध्यक्ष |
| (ख) उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक | —सदस्य |
| (ग) उप सचिव या अपर सचिव | —सदस्य |

इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन या उसे शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- (घ) लोक स्वास्थ्य नर्स के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-
"रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ख' अराजपत्रित"
- (ङ) ज्येष्ठ नर्स श्रेणी;-2 के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने,-
(i) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"लागू नहीं होता"
(ii) स्तंभ 11 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"स्तंभ 8 में अर्हता वाली सेविकाओं में से आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा"
- (च) सेविका के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने,-
(i) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"लागू नहीं होता"
(ii) स्तंभ 11 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"स्तंभ 8 में अर्हता वाले चिकित्सा सहायकों में से आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा"
- (छ) रेडियोग्राफर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"लागू नहीं होता"
- (ज) फार्मासिस्ट के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 8 के सामने,-
(i) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"लागू नहीं होता"
(ii) स्तंभ 7 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"27 वर्ष से अनधिक"
- (झ) प्रयोगशाला तकनीशियन के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 9 के सामने, स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"चयन"
- (ञ) आपरेशन कक्ष तकनीशियन के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 10 के सामने, स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"चयन"

- (ट) आपरेशन कक्ष सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“चयन”
- (ठ) वार्ड मास्टर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 12 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“चयन”
- (ड) रक्ताधान सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 13 के सामने,
(i) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“लागू नहीं होता”
(ii) स्तंभ 7 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“27 वर्ष से अनधिक”
- (ढ) एम्बुलेंस ड्राइवर (श्रेणी-I) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 14 के सामने,
(i) स्तंभ 2 में, विद्यमान अंकों और कोष्ठकों “42(2004)” के स्थान पर, “75 (2005)” अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
(ii) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“चयन”
- (ण) एम्बुलेंस ड्राइवर (श्रेणी-II) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 15 के सामने,
(i) स्तंभ 2 में, विद्यमान अंकों और कोष्ठकों “53 (2004)” के स्थान पर, “65 (2005)” अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
(ii) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“चयन”
- (त) एम्बुलेंस ड्राइवर (साधारण श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 16 के सामने,
(i) स्तंभ 2 में, विद्यमान अंकों और कोष्ठकों “120 (2004)” के स्थान पर, “65 (2005)” अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
(ii) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“लागू नहीं होता”
- (थ) चिकित्सा सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 17 के सामने,-
(i) स्तंभ 4 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“2610-6.-2910-65-3300-70-4000”
(ii) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“चयन”
- (द) वार्ड सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 18 के सामने, स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
“लागू नहीं होता”
- (ध) वार्ड सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 18 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18क. एम्बुलेंस ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	10*(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन अनौद्योगिक समूह 'ग' अननुसचिवीय	5000-150- 8000 रुपए	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

990 GI/08-9

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता
(11)	(12)	
अधिशेष और स्थानांतरण के समायोजन के पश्चात् प्रोन्नति द्वारा	किसी ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर श्रेणी-I की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची से प्रोन्नति द्वारा जिसने आयुध फैक्टरी संगठन में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने पर आमेलन द्वारा	
(13)	(14)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) की संरचना जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।	
(क) स्वास्थ्य सेवा निदेशक या अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक	—अध्यक्ष	
(ख) निदेशक की प्रास्थिति का अधिकारी जो सदस्य/कार्मिक आयुध फैक्टरी बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जाए	—सदस्य	
(ग) उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक/सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक	—सदस्य	

[फा. सं. 7(3)/2001/1/डी(एफवाई-1)]

कुलदीप सिंह, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र तारीख 20 अगस्त, 2005 में का.नि.आ. 88 तारीख 3 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 24th March, 2008

S.R.O. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group B, Group C and Group D Non-industrial (Para-Medical posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group B, Group C and Group D Para-Medical (Non-industrial/Non-Gazetted) posts (Recruitment and conditions of Service), Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group B, Group C and Group D Non-industrial (Para-Medical) posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules)—

(a) in rule 1 relating to 'Short title and commencement', in sub-rule (1), for the figures, "2004", the figures, "2005" shall be substituted.

(b) for rule 5, the following shall be substituted, namely,—

"5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public service Commission (only in case of Group B posts) relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons."

3. In the schedule to the said rules,—

(a) against serial numbers 1 to 13 and 17, 18, in column 2, for the existing figure "2004", the figure "2005" shall be substituted,

(b) against serial number 1, relating to the posts of Matron, in column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Composition of Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:

(a) Director Health Services or Additional Director Health Services —Chairman,

(b) Deputy Director Health Services —Member,

(c) Deputy Secretary or Under Secretary —Member."

(c) after serial No. 2 relating to the post of Senior Nurse Grade-I, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Staff Nurse	9(2008) (Subject to variation dependent on work-load)	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group-'B', Non-Gazetted	Rs. 5500-175-9000	Selection	No.	Not applicable	Not applicable
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
No.	Not applicable	Promotion	By promotion from : Senior Nurse Grade-II in the Pay scale of Rs. 5000-8000 with three years regular service in the grade. Note : Where juniors Who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Composition of Group-'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of : (a) Director Health Services or Additional Director Health Services—Chairman (b) Deputy Director Health Services—Member (c) Deputy Secretary or Under Secretary—Member	Consultation with the Union Public Service Commission in necessary for amending or relaxing any provision of the rules."		

(d) against serial number 4 relating to the post of Public Health Nurse, in column 3, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Civilians in Defence Services, Group-'B', Non-Gazetted"

(e) against serial number 5 relating to the post of Senior Nurse Grade-II,—

(i) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Not applicable"

(ii) in column 11, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"By absorption of Midwife with qualification in Column 8 failing which by direct recruitment"

(f) against serial number 6 relating to the post of Midwife,—

(i) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Not applicable"

(ii) in column 11, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"By absorption of Medical Assistant with qualification in Column 8 failing which by direct recruitment"

(g) against serial number 7, relating to the post of Radiographer, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Not applicable"

990 GI/08-10

- (h) against serial number 8 relating to the post of Pharmacist,—
 - (i) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Not applicable”
 - (ii) in column 7, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Not exceeding 27 years.”
- (i) against serial number 9, relating to the post of Laboratory Technician, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Selection”
- (j) against serial number 10, relating to the post of Operation Room Technician, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Selection”
- (k) against serial number 11, relating to the post of Operation Room Assistant, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Selection”
- (l) against serial number 12, relating to the post of Ward Master, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Selection”
- (m) against serial number 13 relating to the post of Blood Transfusion Assistant,—
 - (i) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Not applicable”
 - (ii) in column 7, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Not exceeding 27 years.”
- (n) against serial number 14 relating to the post of Ambulance Driver (Grade-I),—
 - (i) in column 2, for the existing figures and brackets “42 (2004)”, the figures and brackets “75 (2005)” shall be substituted;
 - (ii) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Selection”
- (o) against serial number 15 relating to the post of Ambulance Driver (Grade-II),—
 - (i) in column 2, for the existing figures and brackets “53 (2004)”, the figures and brackets “65 (2005)” shall be substituted;
 - (ii) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Selection”
- (p) against serial number 16 relating to the post of Ambulance Driver (Ordinary Grade),—
 - (i) in column 2, for the existing figures and brackets “120* (2004)”, the figures and brackets “65* (2005)” shall be substituted;
 - (ii) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Not applicable”
- (q) against serial number 17 relating to the post of Medical Assistant,—
 - (i) in column 4, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000”
 - (ii) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—
“Selection”
- (r) against serial number 18 relating to the post of Ward Sahayak, in column 5, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely,—
“Not applicable”
- (s) after serial number 18 relating to the post of Ward Sahayak, the following serial number and entries thereto shall be added, namely,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18A. Ambulance Driver (Special Grade)	10* (2005) (Subject to variation dependent on work-load)	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group-'C', Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Selection	No.	Not applicable	Not applicable
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
No.	Not applicable	By promotion after adjustment of surplus and transfer.	By promotion from a combined seniority list of Ambulance Driver Grade-I with three years regular service in the grade in Ordnance Factory Organisation. By absorption on passing trade test	Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of : (a) Director Health Services or Additional Director Health Services—Chairman (b) Officer of the status of Director to be nominated by Member/Personnel, Ordnance Factory Board —Member (c) Deputy Director Health Services/Assistant Director Health Services —Member	Not applicable.		

[F. No. 7(3)/2001/I/D (FY-I)]

KULDIP SINGH, Under Secy.

Foot note : The Principal Rules were published in the Gazette of India dated the 20th August, 2005, vide number SRO 88 dated the 3rd August, 2005.